

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-24032020-218901  
SG-DL-E-24032020-218901

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2020/चैत्र 4, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 420
No. 59]	DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2020/CHAITRA 4, 1942	[N.C.T.D. No. 420

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सं. F. 18/191/2015/HG/1379-1392.—दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 (2002 का दिल्ली अधिनियम संख्या 2) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री (गृह), दिल्ली कारागार नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :-

1. दिल्ली कारागार नियम, 2018 के नियम 1202 के (i) और (ii) में :-

(i) 'हिरासत पैरोल' और को 'हिरासत पैरोल' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) नियमित पैरोल' शब्दों के लिए, शब्द "नियमित पैरोल, आपातकालीन पैरोल" प्रतिस्थापित किया

जाएगा।

2. दिल्ली कारागार नियम, 2018 के नियम 1212 के बाद, निम्न नियम डाला जाएगा :-

1212A - आपातकालीन पैरोल:

"महामारी के खतरे, प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य स्थिति या परिस्थितियों में जो जेल में कैदियों की संख्या को तत्काल कम करने के लिए और, कैदियों, जेल प्रशासन एवं बड़े पैमाने पर समाज के हित के लिए, नियम 1210 या 1212 के बावजूद सरकार

नियमित पैरोल के अलावा एक चरण में आठ सप्ताह तक की पैरोल दे सकती है। इसके अलावा यह सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा कि इस आपातकालीन पैरोल पर जेल के बाहर कैदी द्वारा बिताई गई अवधि को कैदी की सजा की ओर गिना जाएगा या नहीं। ”

एम. के. अग्रवाल, उप-सचिव (गृह सामान्य)

## HOME (GENERAL) DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 23rd March, 2020

**No. F 18/191/2015/HG/1379-1392.**—In exercise of the powers conferred by Section 71 of the Delhi Prisons Act (Delhi Act 2 of 2002), Hon'ble Minister of Home, Government of the National Capital territory of Delhi, is pleased to amend the Delhi Prison Rules, 2018, namely:-

1. In (i) and (ii) of the Rule 1202 of the Delhi Prisons Rules, 2018 :-
  - (i) for the words 'Custody Parole &' , the words “**Custody Parole**” shall be substituted .
  - (ii) for the words 'Regular parole', the words “**Regular parole, Emergency parole.**” shall be substituted .
2. After the Rule 1212 of the Delhi Prisons Rules, 2018, following Rule shall be inserted:-

#### **1212A. Emergency Parole:**

*“Notwithstanding anything contained in the Rule 1210 or 1212, in the event of emergent situations like threat of epidemic, natural disaster or any other situation or circumstances which warrant immediate easing of population of the inmates in the prison, and, in order to secure the interest of inmates, the prison administration and the society at large, the Government may grant up to eight weeks parole in one spell in addition to the regular parole as provided in these Rules. This shall be subject to such conditions as may be prescribed by the Government. Further, it shall be the discretion of the Government to decide as to whether the period spent by the prisoner outside the prison on this emergency parole shall be counted towards the sentence of the prisoner or not.”*

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of National Capital Territory of Delhi,

M. K. AGRAWAL, Dy. Secy. (Home General)